

## **M-7042**

**M.Com. (IV<sup>th</sup> Semester)**

**Examination, 2020**

**COMMERCE**

**(Business Research)**

**Time Allowed : Three Hours**

**Maximum Marks : 70**

**नोट :** सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

**Note :** Attempt all the five questions. One question from each unit is compulsory. All questions carry equal marks.

### **इकाई - I / Unit - I**

**Q. 1.** अनुसंधान को परिभाषित कीजिये। अनुसंधान के प्रकार बताइये।

Define Research. Explain types of research.

**M-7042**

**P.T.O.**

**(2)**

**अथवा / Or**

परिकल्पना परीक्षण की विभिन्न विधियों को समझाइये।

Explain various methods of testing hypothesis.

### **इकाई - II / Unit - II**

**Q. 2.** प्राथमिक समंक क्या है ? प्राथमिक व द्वितीयक समंक में अंतर बताइये।

What is primary data ? Distinguish between primary and secondary data.

**अथवा / Or**

काल श्रेणी किसे कहते हैं ? इसके कौन-कौन से प्रमुख संघटक हैं ?

What is a time series ? What are its main components ?

### **इकाई - III / Unit - III**

**Q. 3.** निर्वचन में क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए ?

What precautions should be kept in interpretation ?

**M-7042**

**(3)**

अथवा / Or

रिपोर्ट के प्रकार बताइये।

Explain type of report.

**इकाई - IV / Unit - IV**

**Q. 4.** द्विपद बंटन की विशेषताओं का वर्णन कीजिये।

Give the characteristics of Binomial distribution.

अथवा / Or

दो पासों को एक बार फेकने पर द्वयक या योग 4 आने की प्रायिकता क्या है ?

What is the probability of getting either a doublet or total 4 in a single throw with two dice ?

**इकाई - V / Unit - V**

**Q. 5.** क्या आप निम्न प्रदत्त समकों में कोई असंगति पाते हैं :

$N = 600, (A) = 250, (aB) = 400, (Ab) = 200$

**(4)**

Do you find any inconsistency in the data given

below :

$N = 600, (A) = 250, (aB) = 400, (Ab) = 200$

अथवा / Or

$\chi^2$  परीक्षण क्या है ? इस परीक्षण का किन परिस्थितियों में प्रयोग करना चाहिये ?

What is  $\chi^2$  test ? Under what conditions is it applicable ?